

५. व्यायाम

५.१ प्रेरक व्यायाम

कोई भी खेल खेलने से पूर्व शरीर को खेलने के लिए तैयार करना पड़ता है। खेल में फुर्ती लानी पड़ती है। इसके लिए जो व्यायाम आवश्यक होते हैं; उन्हें उत्तेजक व्यायाम कहते हैं।

कुछ आसान प्रेरक व्यायाम निम्न प्रकार के हैं-

१. मैदान पर आने के बाद कुछ दूरी तक धीरे-धीरे और बाद में कुछ दूरी तक तेज गति से दौड़ना।
२. सीढ़ियाँ गति से चढ़ना-उतरना।
३. विशेष गति से सूर्य नमस्कार करना।
४. गति से लंगड़ी खेलना।
५. विविध प्राणियों की चालों की नकल उतारना।

कुछ प्रेरक व्यायाम



१



२

मेरी कृति

उत्तेजक व्यायाम का अभ्यास करना। जैसे-खींचना, झुकना, मुड़ना, मरोड़ना, जोड़ों को घुमाना आदि।

- ♦ व्यायामों का चयन विद्यार्थियों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए करें। शरीर थकने तक व्यायाम न करने दें। व्यायामों में रंजकता हो। पिछली कक्षा के प्रेरक व्यायामों का अभ्यास करवाएँ।

५.२ सूर्य नमस्कार

१



१



२



५



१०



३



७



४



प्रारंभिक
स्थिति

६



५



५.३ तालबद्ध व्यायाम



प्रारंभिक स्थिति

प्रकार १ : बैठकर की जानेवाली कसरत

१. जमीन पर पालथी मारकर बैठना । दोनों ओर जमीन पर न टिकाते हुए हाथ थोड़े-से ऊपर उठाना ।
२. दोनों हाथ कानों से सटकर सीधे सिर पर ले जाकर हथेलियाँ को मिलाना ।
३. दोनों हाथ जुड़ी हथेलियों की स्थिति में सिर पर टिकाना ।
४. फिर से हाथ सिर के ऊपर लेना । कृति (२) के अनुसार प्रारंभिक स्थिति में (१) आना ।



१



२



३



४

- ◆ यह बता दें कि प्रत्येक प्रकार की प्रारंभिक स्थिति चित्र/आकृति क्र.१ जैसी ही है । एक के बाद एक को गुट प्रमुख बनाकर व्यायाम के प्रकार करवाएँ ।

प्रकार २ : खड़े होकर की जाने वाली कसरत



प्रारंभिक स्थिति



१



२



३



४

दोनों हाथों में फूलों, पंखों के रंगीन गुच्छे, रंगीन रूमाल, गेंद देने पर कवायद आकर्षक दिखाई देगी ।



प्रारंभिक स्थिति



१



२



३



४

- ◆ उपरोक्त चित्रों में तालबद्ध व्यायाम/कसरत के कुछ नमूने दिए हैं । अपनी सुविधा के अनुसार विविध प्रकार करवाएँ ।
- ◆ अपनी कल्पकता का उपयोग करके नये प्रकार सिखाकर उनका उपयोग भी प्रस्तुतीकरण के लिए किया जा सकता है ।

गुब्बारे कसरत



लाठी कसरत



रूमाल कसरत



मेरी कृति

पिछली कक्षा में की हुई कसरतों का अभ्यास करना ।

- ◆ उपरोक्त चित्रों में तालबद्ध व्यायाम/कसरतों के कुछ उदाहरण दिए हैं । अपनी सुविधा के अनुसार विविध प्रकार करवाएँ ।
- ◆ अपनी कल्पकता का उपयोग करके नये प्रकार सिखाकर उनका उपयोग भी प्रस्तुतीकरण के लिए किया जा सकता है ।

५.४ योग

१. प्राणायाम की पूर्वतैयारी

१.१ छाती फुलाकर साँस लेना और छोड़ना ।

१. सहजता से बैठना ।
२. छाती फुलाते हुए नाक से साँस लेना ।
३. साँस धीरे-धीरे छोड़ना ।
४. एक हाथ छाती पर रखकर फिर से छाती पूर्ववत बनेगी इस ओर ध्यान देना ।



१.२ पेट फुलाकर साँस लेना और छोड़ना ।

१. सहजता से बैठना
२. धीरे-धीरे पेट फुलाकर नाक से साँस लेना ।
३. साँस धीरे-धीरे छोड़ना ।
४. एक हाथ पेट पर रखकर पेट पूर्ववत-सा बनेगा इस ओर ध्यान देना ।



१.३ जोर से फूँकना ।

१. सहजता से बैठना ।
२. साँस लेना ।
३. कम समय में अधिक-से-अधिक फूँक मारना ।



१.४ शांति से बैठना ।

१. सहज स्थिति में बैठना ।
२. आँखें बंद करना ।
३. हमेशा की तरह श्वासोच्छ्वास करते हुए दो-तीन मिनट तक शांति से बैठना ।



२. योगासनों की पूर्वतैयारी

आसन/योगासन अर्थात तरह-तरह की शरीर स्थिति । योगासनों के कारण स्वास्थ्य संपन्न जीवन जी सकते हैं । योगाभ्यास में विविध आसन बताए गए हैं ।

उत्तम पद्धति से योगासन करने के लिए प्रकृति के विभिन्न प्राणी, पक्षी, पेड़ों जैसी गतिविधियाँ करें ।



२.१ तितली जैसी गतिविधियाँ

१. चित्र में दिखाए अनुसार पालथी मारकर जमीन पर बैठना ।
२. दोनों हाथों से पैरों के पंजे पकड़ना ।
३. दोनों घुटने जमीन से ऊपर-नीचे करना ।



२.२ साँप जैसी शरीर स्थिति

१. पेट पर लेटना ।
२. दोनों हाथों की हथेलियाँ छाती के पास रखना ।
३. कमर से शरीर को थोड़ा ऊपर उठाना, सिर आगे से सीधे रखना ।



२.३ घास की पत्तियों जैसे हिलना ।

१. खड़े होकर हाथ ऊपर करना ।
२. कमर से लेकर शरीर के ऊपरी हिस्से की ओर हाथों की गतिविधि बाईं दाहिनी ओर करना ।



२.४ पहाड़ जैसी शरीर स्थिति

१. चित्र में दिखाए अनुसार दोनों हाथ जमीन पर टिकाना । हाथों की हथेलियाँ जमीन पर रखना ।
२. कमर को अधिक-से अधिक ऊपर उठाने का प्रयत्न करना ।
३. दोनों हाथों के बीच में से सिर अंदर की ओर लाना ।

विविध शरीर स्थितियाँ



- ◆ ऊपर दिए चित्रों में विविध शरीर स्थितियों के नमूने दिखाएँ हैं। अपनी सुविधा के अनुसार शरीर स्थिति के विविध प्रकार जैसे-खड़े होकर, बैठकर, पीठ पर सोकर तथा पेट पर सोकर कराएँ। विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमता के अनुसार प्रकार करने के लिए कहें।